

तुम्हारा क्या कहना है श्याम | By Simran Singh Khinchi

जुबां जुबां पे चर्चा इनका हैं इतने मकबूल
होती है श्री श्याम के दर पे सबकी दुआ कबूल
तुम्हारा क्या कहना है श्याम
तुम्हे ना भूलू सुबह शाम

इनकी बात निराली इनका जग में ऊँचा नाम
जो हर शय को सोना कर दे वो पारस है श्याम
इनका नाम लिए दुःख भागे इनमे वो है शक्ति
भंडारे भर जाये जो भी करे श्याम की भक्ति
काँटा भी इनके प्रसाद से हो जाता है फूल
होती है श्री श्याम के दर पे सबकी दुआ कबूल
तुम्हारा क्या कहना है श्याम
तुम्हे ना भूलू सुबह शाम

जिसपे महर करे उसकी तकदीर संवर जाए
जो भी खाली जाए उसकी झोली भर जाए
बाबा की चौखट पे ऐसा नूर बरसता है
मेरा शीश का दानी सबके दिल में बस्ता है
कर देते ये माफ़ जो हमसे हो जाती है भूल
होती है श्री श्याम के दर पे सबकी दुआ कबूल
तुम्हारा क्या कहना है श्याम
तुम्हे ना भूलू सुबह शाम

मैंने जैसा सुना था उससे ज़्यादा ही पाया है
सचमुच श्याम तुम्हारे चरणों में आराम आया है
मैं तेरी हो चुकी सांवरे रोज़ यहाँ आउंगी
जीवन भर मैं सिमरन तेरी महिमा गाउंगी
मुझे बना लो बाबा अपने चरणों की तुम धुल
होती है श्री श्याम के दर पे सबकी दुआ कबूल
तुम्हारा क्या कहना है श्याम
तुम्हे ना भूलू सुबह शाम

<https://bhaktivandana.com/lyrics/%e0%a4%a4%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%af/>